

Isa

Chapter 40

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

נְחֻמוֹ נְחֻמוֹ עָמִי יֹאמֵר אֱלֹהֵיכֶם :
शांति-दो शांति-दो लोगों-को-मेरे कहता-है एलोहीम-तुम्हारे
H5162 H5162 H0559 H0430

तुम्हारा परमेश्वर कहता है, “चैन दे, चैन दे मेरे लोगों को!

יְדַבֵּר עַל-לֵב יְרוּשָׁלַם וְקָרָא וְאָלָהָ כִּי מְלֵאָה זְבֻלָּהּ כִּי
बोलो पर-हृदय यरूशलेम-के और-पुकारो उस-से कि
H1696 H3389 H7121 H0413 H4390

נְדָחָה אֲחֵרִים עֲוֹנָהּ כִּי לִקְחָה מִיָּד יְהוָה כְּפָלִים בְּכֹל-חַטָּאתֶיהָ :
क्षमा-किया-गया अथम-उसका कि पाया-उसने से-हाथ यहोवा-के दुगुना में-सब-पापों-के-उसके
H7521 H5771 H3947 H3027 H3068 H3718 H3605

तू दया से बातें कर यरूशलेम से! यरूशलेम को बता दे, 'तेरी दासता का समय अब पूरा हो चुका है। तूने अपने अपराधों की कीमत दे दी है।' यहोवा ने यरूशलेम के किये हुए पापों का दुगुना दण्ड उसे दिया है!"

קוֹל אַוֶּזֶת קוֹרָא בְּמַדְבָּר פָּנּוּ תַּיָּאֵר-כִּרְוֵי מַרְגָּל יְהוָה יְהוָה יִשְׁרָוּ בְּעֵרְבָה מַסְלָה
आवाज़ पुकारने-वाले-का पुकारने-जंगल में-जंगल तैयार-करो मार्ग यहोवा-का यहोवा-का सीधा-करो में-मैदान राजमार्ग
H7121 H6437 H1870 H3068 H3474 H6160 H4546

לְאֵלֵינוּ :
को-एलोहीम-हमारे
H0430

सुनो! एक व्यक्ति का जोर से पुकारता हुआ स्वर: “यहोवा के लिये बियाबान में एक राह बनाओ! हमारे परमेश्वर के लिये बियाबान में एक रास्ता चौरस करो!

כָּל-גֵּיאַ יִנְשָׂא וְכָל-הַר וְגִבְעָה יִשְׁפְּלוּ וְהָיָה הָעֵקֶב לְמִישׁוֹר
सब-घाटी उठाई-जाएगी और-सब-पहाड़ और-टीला और-टीला नीचे-किए-जाएंगे और-होगा और-होगा समतल
H3605 H5375 H3605 H2022 H1389 H8213 H1961 H4334

וְהָרְקָסִים לְבִקְעָה :
और-ऊँची-जगहें मैदान
H7406 H1237

हर घाटी को भर दो। हर एक पर्वत और पहाड़ी को समतल करो। टेढ़ी—मेढ़ी राहों को सीधा करो। उबड़—खाबड़ को चौरस बना दो।

וַיְנַבְּאָה מַחֲמָה וְהָיָה כְּבוֹד וְרָאוּ וְרָאוּ וְרָאוּ כִּי כִּי יְהוָה יְהוָה יְהוָה
और-प्रकट-होगी महिमा यहोवा-की यहोवा-की यहोवा-की और-देखेंगे सब-शरीर कि कि मुख यहोवा-के बोला-है
H1540 H3519 H3068 H7200 H3605 H1320 H6310 H3068 H1696

ס
पूर्ण

तब यहोवा की महिमा प्रकट होगी। सब लोग इकट्ठे यहोवा के तेज को देखेंगे। हाँ, यहोवा ने स्वयं ये सब कहा है।”

קָוָה	וְכָל-	חֲצִיר	הַבְּשֵׂר	כָּל-	אֶקְרָא	מָה	וְאָמַר	קָרָא	אָמַר	קוֹל	6
कृपा-उसकी	और-सब-	घास	शरीर	सब-	पुकारूँ	क्या	और-कहा	पुकार	कहने-वाला	आवाज़	
	H3605		H1320	H3605	H7121	H4100	H0559	H7121	H0559		
									הַשָּׂדֶה:	כְּצִיץ	
									मैदान-के	जैसा-फूल	

एक वाणी मुखरित हुई, उसने कहा, “बोलो!” सो व्यक्ति ने पूछा, “मैं क्या कहूँ” वाणी ने कहा, “लोग सर्वदा जीवित नहीं रहेंगे। वे सभी रेगिस्तान के घास के समान हैं। उनकी धार्मिकता जंगली फूल के समान है।

הָעָם:	חֲצִיר	אָכַן	בּוֹ	נִשְׁבָּה	יְהוָה	רוּחַ	כִּי	צִיץ	נִבֵּל	חֲצִיר	יִבֵּשׁ	7
लोग	घास	सचमुच	उस-पर	चली	यहोवा-की	आत्मा	कि	फूल	मुरझाता-है	घास	सूखता-है	
		H4043		H5380	H3068	H7307					H3001	

एक शक्तिशाली आँधी यहोवा की ओर से उस घास पर चलती है, और घास सूख जाती है, जंगली फूल नष्ट हो जाता है। हाँ सभी लोग घास के समान हैं।

ס	לְעוֹלָם:	יָקוּם	אֱלֹהֵינוּ	וְדַבַּר-	צִיץ	נִבֵּל	חֲצִיר	יִבֵּשׁ	8
पूर्ण	सदा-के-लिए	खड़ा-रहता-है	एलोहीम-हमारे	पर-वचन-	फूल	मुरझाता-है	घास	सूखता-है	
	H5769		H0430	H1697				H3001	

घास मर जाती है और जंगली फूल नष्ट हो जाता है। किन्तु हमारे परमेश्वर के वचन सदा बने रहते हैं।”

קוֹלְךָ	בְּכֹחַ	הָרִימֵנִי	צִיּוֹן	מִבְּשָׂרָת	לְךָ	עָלִי-	נִבְהָ	הָרַר-	עַל	9
आवाज़-अपनी	बल-से	ऊँचा-कर	सियोन	सुसमाचार-देने-वाली	तू-उस-पर	चढ़-	ऊँचे	पहाड़-	पर-	
			H6726	H1319		H5927	H1364	H2022		
אֱלֹהֵינוּ:	הִנֵּה	יְהוּדָה	לְעָרֵי	אֲמָרֵי	אֶל-	הָרִימֵנִי	יְרוּשָׁלַיִם	מִבְּשָׂרָת		
एलोहीम-तुम्हारे	देखो	यहूदाह-के	को-नगरों	कह	डर	न-ऊँचा-कर	यरूशलेम	सुसमाचार-देने-वाली		
H0430	H2009	H3063		H0559	H3372	H0408	H3389	H1319		

हे, सियोन, तेरे पास सुसन्देश कहने को है, तू पहाड़ पर चढ़ जा और ऊँचे स्वर से उसे चिल्ला! यरूशलेम, तेरे पास एक सुसन्देश कहने को है। भयभीत मत हो, तू ऊँचे स्वर में बोल! यहूदा के सारे नगरों को तू ये बातें बता दे: “देखो, ये रहा तुम्हारा परमेश्वर!”

שְׂכָרְךָ	הִנֵּה	לְךָ	מִשְׁלָח	וְזָרְעוֹ	יָבוֹא	בְּחֹזֶק	יְהוָה	אֲדוֹנָי	הִנֵּה	10
प्रतिफल-उसका	देखो	उस-के-लिए	शासन-करती-है	और-भुजा-उसकी	आएगा	में-शक्ति	यहोवा	आदोनाई	देखो	
H7939	H2009		H4910	H2220	H0935	H2389	H3069	H0136	H2009	
						לְפָנָיו:	וּפְעֻלָּתוֹ	אִתּוֹ		
						उसके-आगे	और-कार्य-उसका	उसके-साथ		
						H6440	H6468	H0854		

मेरा स्वामी यहोवा शक्ति के साथ आ रहा है। वह अपनी शक्ति का उपयोग लोगों पर शासन करने में लगायेगा। यहोवा अपने लोगों को प्रतिफल देगा। उसके पास देने को उनकी मजदूरी होगी।

יִשָּׂא	וּבְחִינָו	טְלָאִים	יִקְבֹּץ	בְּזָרְעוֹ	יִרְעֶה	עֲרֻרָו	כְּרֻעָה	11
उठाता-है	और-गोद-में-अपनी	मेमनों	इकट्ठा-करता-है	भुजा-अपनी-से	चराता-है	झुण्ड-अपने	जैसे-चरवाहा	
H5375	H2436	H2922	H6908	H2220		H5739		
						ס	עֲלוֹת	
						पूर्ण	ले-जाता-है	दूध-पिलातीं
						H5095	H5763	

यहोवा अपने लोगों की वैसे ही अगुवाई करेगा जैसे कोई गड़ेरिया अपने भेड़ों की अगुवाई करता है। यहोवा अपने बाहु को काम में लायेगा और अपनी भेड़ों को इकट्ठा करेगा। यहोवा छोटी भेड़ों को उठाकर गोद में थामेगा, और उनकी माताएँ उसके साथ—साथ चलेंगी। संसार परमेश्वर ने रचा: वह इसका शासक है

עֵפָר धूल H6083	בְּשָׁלֵשׁ में-तहाई-भाग	וְכָל और-समेटा	תָּכַן मापा	בְּנֵת से-बालिशत	וְשָׁמַיִם और-आकाश	מַיִם पानी	בְּשָׁעָלוֹ से-चुल्लू-अपने	מָרָר नापा	מִי किसने-	12
---------------------------------------	----------------------------	-------------------	----------------	---------------------	-----------------------	---------------	-------------------------------	---------------	---------------	----

בְּמַאֲזוּיָם: में-तराजूओं	וּנְבָעוֹת और-टीलों	הַרִיִּים पहाड़ों	בְּפָלֵס में-तराजू	וְשָׁקָל और-तौला	הָאָרֶץ पृथ्वी-की
H3976	H1389	H2022	H6425	H8254	H0776

किसने अँजली में भर कर समुद्र को नाप दिया किसने हाथ से आकाश को नाप दिया किसने कटोरे में भर कर धरती की सारी धूल को नाप दिया किसने नापने के धागे से पर्वतों और चोटियों को नाप दिया यह यहोवा ने किया था!

יְדִיעָנּוּ: बताएगा-उसे	עֲצָתוֹ मन्त्रणा-उसकी	וְאִישׁ और-पुरुष	יְהוָה यहोवा-की	רִוַח आत्मा	אֶת- को-	תָּכַן नापा	מִי किसने-	13
----------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------	----------------	---------------	----

H3045	H6098	H0376	H3068	H7307	H0853	H8505	H4310
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

यहोवा की आत्मा को किसी व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि उसे क्या करना था। यहोवा को किसी ने यह नहीं बताया कि उसे जो उसने किया है, कैसे करना था।

יְדִיעָנּוּ ज्ञान	וְיִלְמְדֵהוּ और-सिखाया-उसे	מִשְׁפָּט न्याय-के	בְּמַרְגָּ में-मार्ग	וְיִלְמְדֵהוּ और-सिखाया-उसे	וְיְבִינְהוּ और-समझाया-उसे	נוֹעֵץ सलाह-ली-उसने	מִי किस	אֶת- को-	14
----------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------	-------------	----

H1847	H3925	H4941	H0734	H3925	H0995	H3289	H4310	H0854
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

יְדִיעָנּוּ: बताएगा-उसे	תְּבוּנָתוֹ समझ	וְדַרְךְ और-मार्ग
H3045	H8394	H1870

क्या यहोवा ने किसी से सहायता माँगी? क्या यहोवा को किसी ने निष्पक्षता का पाठ पढ़ाया है? क्या किसी व्यक्ति ने यहोवा को ज्ञान सिखाया है? क्या किसी व्यक्ति ने यहोवा को बुद्धि से काम लेना सिखाया है? नहीं! इन सभी बातों का यहोवा को पहले ही से ज्ञान है!

כָּרַק जैसे-सूक्ष्म	אֵיִם टापू	הָ देखो	נְחֻשְׁבוּ गिनी-जाती-हैं	מַאֲזוּיָם तराजूओं-की	וּכְשָׁחָק और-जैसी-धूल	מְדָלִי बाल्टी-से	כְּמַר जैसी-बूँद	גּוֹיִם जातियाँ	הָ देखो	15
------------------------	---------------	------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------	----

H1851	H0339	H2005	H2803	H3976	H7834	H1805	H4752	H2005
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

יְטוּל: उठाता-है
H5190

देखो, जगत के सारे देश घड़े में एक छोटी बूंद जैसे हैं। यदि यहोवा सुदूरवर्ती देशों तक को लेकर अपनी तराजू पर धर दे, तो वे छोटे से रजकण जैसे लगेंगे।

ס पूर्ण	עוֹלָה: होमबलि-के-लिए	רִי पर्याप्त	אֵין नहीं	וְחִתּוֹ और-जानवरों-उसके	בְּעַר जलाने-को	רִי पर्याप्त	אֵין नहीं	וּלְבָנוֹן और-लबानोन	16
------------	--------------------------	-----------------	--------------	-----------------------------	--------------------	-----------------	--------------	-------------------------	----

H1767	H0369	H1767	H0369	H3844
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

लबानोन के सारे वृक्ष भी काफी नहीं है कि उन्हें यहोवा के लिये जलाया जाये। लबानोन के सारे पशु काफी नहीं हैं कि उनको उसकी एक बलि के लिये मारा जाये।

לֹא- सब-	הַגּוֹיִם जातियाँ	כְּאֵין जैसे-कुछ-नहीं	נִגְדוּ उसके-साम्हने	מֵאִפְסָ से-शून्य	וְתָהוּ और-व्यर्थ	נְחֻשְׁבוּ- गिनी-जाती-हैं-	לֹא: उसे	17
-------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	-------------	----

H2803	H8414	H5048	H0369	H3605
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

परमेश्वर की तुलना में विश्व के सभी राष्ट्र कुछ भी नहीं हैं। परमेश्वर की तुलना में विश्व के सभी राष्ट्र बिल्कुल मूल्यहीन हैं।

לֹא: उसे	תְּעַרְכוּ तुम-ठहराओगे	דְּמוּת समानता	וּמִהָ- और-क्या-	אֵל एल-की	תְּדַמְיוּ तुलना-करोगे	מִי किस	וְאֵל- और-किस-से-	18
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------	--------------	---------------------------	------------	----------------------	----

H1823	H4100	H0410	H1819	H4310	H0413
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

क्या तुम परमेश्वर की तुलना किसी भी वस्तु से कर सकते हो नहीं! क्या तुम परमेश्वर का चित्र बना सकते हो नहीं!

צוּרָה: सुनार	כֶּסֶף चांदी-की	וְרִתְקוֹת और-जंजीरें	יְרֻקְעָנּוּ मढ़ता-है-उसे	בְּזָהָב से-सोने	וְצִרָה और-सुनार	חָרָשׁ कारीगर	נִסָּךְ ढालता-है	הַפְּסֹלָה मूर्ति	19
------------------	--------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------	----

H6884	H3701	H7577	H7554	H2091	H6884	H2796	H6459
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

कुन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्थर और लकड़ी की मूर्तियाँ बनाते हैं और उन्हें देवता कहते हैं। एक कारीगर मूर्ति को बनाता है। फिर दूसरा कारीगर उस पर सोना मढ़ देता है और उसके लिये चाँदी की जंजीरे बनाता है!

לְהַכִּין	לֹא	יִבְרָשׁ-	הַכֵּם	חָרַשׁ	יִבְחַר	יִרְקַב	לֹא-	עֵץ	תְּרוּמָה	הַמְסֻכָּן	20
को-तैयार-करने	उसे	ढूँढता-है-	बुद्धिमान	कारिगर	चुनता-है	सड़गी-जो	न-	लकड़ी	भेंट-के-लिए	गरीब	
		H1245	H2450	H2796	H0977	H7537	H3808	H6086	H8641		

לֹא יְמוּטָה :
 न हिलेगी
 מוֹרֵט
 मूर्ति
[H4131](#) [H3808](#) [H6459](#)

सो वह व्यक्ति आधार के लिये एक विशेष प्रकार की लकड़ी चुनता है जो सड़ती नहीं है। तब वह एक अच्छे लकड़ी चुनता है जो सड़ती नहीं है। तब वह एक अच्छे लकड़ी के कारीगर को ढूँढता है। वह कारीगर एक ऐसा “देवता” बनाता है जो ढुलकता नहीं है!

מוֹסְדוֹת	הַבִּינְתָם	הָלוֹא	לָכֵם	מֵרֵאשׁ	הִגִּד	הָלוֹא	תִּשְׁמְעוּ	הָלוֹא	תָּדַעוּ	הָלוֹא	21
नीवें	समझे-तुम	क्या-नहीं	तुम्हें	से-आदि	बताया-गया	क्या-नहीं	सुना	क्या-नहीं	जानते-हो	क्या-नहीं	
H4146	H0995	H3808			H5046	H3808	H8085	H3808	H3045	H3808	

הָאָרֶץ :
 पृथ्वी-की
[H0776](#)

निश्चय ही, तुम सच्चाई जानते हो, बोलो निश्चय ही तुमने सुना है! निश्चय ही बहुत पहले किसी ने तुम्हें बताया है! निश्चय ही तुम जानते हो कि धरती को किसने बनाया है!

שָׁמַיִם	כְּדָק	הַנּוֹטָה	כְּחַנְבִּים	וַיִּשְׁבִּיהָ	הָאָרֶץ	חוּג	עַל-	הַיִּשָּׁב	22
आकाश	जैसे-परदे	जो-तानता-है	जैसे-टिड्डे	और-निवासी-उसके	पृथ्वी-के	गोले	पर-	जो-बैठता-है	
H8064	H1852	H5186	H2284	H3427	H0776	H2329		H3427	

לְשַׁבֵּת :
 रहने-के-लिए
 כְּאֶהָל
 जैसे-तम्बू
 וַיִּמְרָחֶם
 और-फैलाता-है-उन्हें
[H3427](#) [H0168](#) [H4969](#)

यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है! वही धरती के चक्र के ऊपर बैठता है! उसकी तुलना में लोग टिड्डी से लगते हैं। उसने आकाशों को किसी कपड़े के टुकड़े की भाँति खोल दिया। उसने आकाश को उसके नीचे बैठने को एक तम्बू की भाँति तान दिया।

עֲשָׂה :	כְּתִהוּ	אָרֶץ	שְׁפָטִי	לְאִין	רוֹזְנִים	הַנּוֹתֵן	23
बनाया	जैसे-व्यर्थ	पृथ्वी-के	न्यायाधीशों	को-शून्य	शासकों	जो-देता-है	
	H8414	H0776	H8199	H0369	H7336	H5414	

सच्चा परमेश्वर शासकों को महत्त्वहीन बना देता है। वह इस जगत के न्यायकर्ताओं को पूरी तरह व्यर्थ बना देता है!

וְגַם-	גִּזְעָם	בְּאָרֶץ	שָׂרָשׁ	בְּלֹ-	אָף	זָרְעוּ	בְּלֹ-	אָף	נָטְעוּ	בְּלֹ-	אָף	24
और-भी-	डंठल-उनका	में-पृथ्वी	जड़	न-	हॉ	बोए-गए	न-	हॉ	रोपे-गए	न-	हॉ	
H1571	H1503	H0776	H8327	H1077	H0637	H2232	H1077	H0637	H5193	H1077	H0637	

וַיִּבְשּׁוּ :
 पूर्ण उड़ा-ले-जाती-है-उन्हें
 כִּקְשׁ
 जैसे-भूसा
 וּסְעָרָה
 और-आँधी
 וַיִּבְשּׁוּ
 और-सूख-गए
 בָּהֶם
 उन-पर
 נִשְׁפָּקָה
 फूँका
[H5375](#) [H7179](#) [H3001](#) [H5398](#)

वे शासक ऐसे हैं जैसे वे पौधे जिन्हें धरती में रोपा गया हो, किन्तु इससे पहले की वे अपनी जड़ें धरती में जमा पाये, परमेश्वर उन को बहा देता है और वे सूख कर मर जाते हैं। आँधी उन्हें तिनके सा उड़ा कर ले जाती है।

קָרוֹשׁ :	יֹאמַר	וְאִשָּׁוָה	תְּרַמְּוֵנִי	מִי	וְאֵל-	25
पवित्र	कहता-है	और-बराबर-होंगा	तुलना-करोगे-मुझे	किस	और-किस-से-	
H6918	H0559		H1819	H4310	H0413	

“क्या तुम किसी से भी मेरी तुलना कर सकते हो नहीं! कोई भी मेरे बराबर का नहीं है।”

26	שָׂאוּ- उठाओ-	מְרוֹם ऊँचाई-की-और	עֵינֵיכֶם आँखें-अपनी	וְרֹאוּ और-देखो	מִי- किसने-	בָּרָא सृजा	אֱלֹהִים ये	הַמוֹצֵיאַת जो-निकालता-है	בְּמִסְפָּר में-संख्या	צְבָאָם सेना-उनकी
	H5375	H4791	H7200	H4310	H0428	H3318	H4557			

לְכֻלָּם को-सब	בְּשֵׁם से-नाम	יִקְרָא पुकारता-है	מְרַב से-बहुताई	אוֹנִים शक्ति-की	וְאִמִּין और-सशक्त	כֹּחַ बल	אִישׁ एक	לֹא नहीं	נְעִיר: गायब	ס पूर्ण
H3605	H8034	H7121	H7230	H0202	H0533	H0376	H3808			

ऊपर आकाशों को देखो। किसने इन सभी तारों को बनाया किसने वे सभी आकाश की सेना बनाई किसको सभी तारे नाम—बनाम मालूस हैं सच्चा परमेश्वर बहुत ही सुदृढ़ और शक्तिशाली है इसलिए कोई तारा कभी निज मार्ग नहीं भूला।

27	לְמָה क्यों	תֹּאמַר कहता-है	יַעֲקֹב याकोब	וַתִּדְבַר और-बोलता-है	יִשְׂרָאֵל यिस्राएल	נִסְתָּרָה छिपी-है	רָחֵל राह-मेरा	מִיְהוָה से-यहोवा	וּמֵאֱלֹהֵי और-से-एलोहीम-मेरे	מִשְׁפָּטֵי न्याय-मेरा
	H4100	H0559	H3290	H1696	H3478	H5641	H1870	H3068	H0430	H4941

יַעֲבֹר:
टल-जाता-है

हे याकूब, यह सच है! हे इस्राएल, तुझको इसका विश्वास करना चाहिए! सो तू क्यों ऐसा कहता है कि "जैसा जीवन मैं जीता हूँ उसे यहोवा नहीं देख सकता! परमेश्वर मुझको पकड़ नहीं पायेगा और न दण्ड दे पायेगा।"

28	הֲלוֹא क्या-नहीं	יָדַעְתָּ जानता-तू	אִם- यदि-	לֹא नहीं	שָׁמַעַתָּ सुना-तूने	אֱלֹהֵי एलोहीम	עוֹלָם सदा-के	יְהוָה यहोवा	בּוֹרָא सृजनहार	קִצּוֹת कोनों	הָאָרֶץ पृथ्वी-के	לֹא नहीं
	H3808	H3045	H3808	H3808	H8085	H0430	H5769	H3068	H7098	H0776	H3808	

יִיעָר थकता-है	וְלֹא और-नहीं	יִיגַע श्रमित-होता-है	אֵין नहीं-है	חֶקֶךָ खोज	לְתַבּוּנָתוֹ: की-समझ-उसकी
H3286	H3808	H3021	H0369	H2714	H8394

सचमुच तूने सुना है और जानता है कि यहोवा परमेश्वर बुद्धिमान है। जो कुछ वह जानता है उन सभी बातों को मनुष्य नहीं सीख सकता। यहोवा कभी थकता नहीं, उसको कभी विश्राम की आवश्यकता नहीं होती। यहोवा ने ही सभी दूरदराज के स्थान धरती पर बनाये। यहोवा सदा जीवित है।

29	נָתַן जो-देता-है	לִיעָף को-थके-हुए	כֹּחַ शक्ति	וְלֹא और-को-जिसके-पास-नहीं	אוֹנִים बल	עֲזָמָה ताकत	יִרְבֶּה: बढ़ाता-है
	H5414	H3287		H0369	H0202	H6109	

यहोवा शक्तिहीनों को शक्तिशाली बनने में सहायता देता है। वह ऐसे उन लोगों को जिनके पास शक्ति नहीं है, प्रेरित करता है कि वह शक्तिशाली बने।

30	וַיַּעֲפוּ और-थकते-हैं	נְעָרִים जवान	וַיִּגְעוּ और-श्रमित-होते-हैं	וּבְחֻרָיִם और-जवान	כָּשׁוּל ठोकर-खाते-हैं	יִכְשְׁלוּ: ठोकर-खाते-हैं
	H3286	H5288	H3021	H0970	H3782	H3782

युवक थकते हैं और उन्हें विश्राम की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ तक कि किशोर भी ठोकर खाते हैं और गिरते हैं।

31	וְקוֹנֵה पर-जो-आस-लगाते-हैं	יְהוָה यहोवा-पर	יִקְלִיפוּ नए-करेंगे	כֹּחַ शक्ति	יַעֲלוּ चढ़ेंगे	אָבָר पंख	כְּנָשָׁרִים जैसे-गरुड़	וְרוֹצֵצוּ दौड़ेंगे	וְלֹא और-नहीं	יִיגְעוּ श्रमित-होंगे
	H3068	H3068	H2498		H5927	H0083	H5404	H7323	H3808	H3021

יִלְכוּ चलेंगे	וְלֹא और-नहीं	יִיעָפוּ: थकेंगे	פ पूर्ण
H3212	H3808	H3286	

किन्तु वे लोग जो यहोवा के भरोसे हैं फिर से शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे किसी गरुड़ के फिर से पंख उग आते हैं। ये लोग बिना विश्राम चाहे निरंतर दौड़ते रहते हैं। ये लोग बिना थके चलते रहते हैं।